



January 30, 2021

**BSE Limited**  
P. J. Towers  
Dalal Street, Fort  
**Mumbai - 400 001**

**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E),  
**Mumbai – 400 051**

Dear Sirs,

**Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements**

In continuation of our letter dated January 29, 2021, we enclose copies of the advertisements published on January 30, 2021, in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi) with respect to notice of the Board Meeting scheduled to be held on February 5, 2021.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Jubilant Life Sciences Limited

Rajiv Shah  
Company Secretary

Encl.: as above

**A Jubilant Bhartia Company**

OUR VALUES



**Jubilant Life Sciences Limited**

1-A, Sector 16-A,  
Noida-201 301, UP, India  
Tel: +91 120 4361000  
Fax: +91 120 4234895-96  
www.jubl.com

Regd Office:  
Bhartiagram, Gajraula  
Distt. Amroha - 244 223,  
UP, India  
CIN : L24116UP1978PLC004624

# IndiGo opts to raise funds via SLB route

Rhik Kundu  
rhik.k@livemint.com  
NEW DELHI

India's largest domestic airline IndiGo has scotched plans to raise funds through a qualified institutional placement (QIP), opting instead to raise money through sale and lease back (SLB) transactions and other alternative options.

"There are several financing options. The ongoing deliveries of neo aircraft (A320neo and A321neo) in FY22 will bring further liquidity," IndiGo's chief financial officer Aditya Pande told analysts during the airline's post-result call on Thursday.

The airline will not raise funds through the QIP route, Pande said without elaborating on the decision.

The board of directors of IndiGo had in August approved raising up to ₹4,000 crore through a QIP.

IndiGo is one of the pioneers of SLB transactions in Indian aviation. An SLB is a transaction in which the owner sells the aircraft and then takes it back on lease from the buyer. This kind of deal typically removes the aircraft and its associated debt from the carrier's balance sheet.

At the end of the December quarter, IndiGo had ₹18,365.3 crore in cash, including free cash of ₹10,920.7 crore. Its total debt stood at ₹27,726.10 crore at the time.

The airline reported a net loss of ₹620.14 crore in the December quarter, as compared to a loss of ₹1,194.83 crore in the quarter to September.

IndiGo had reported a profit of ₹495.97 crore during the October-December period in 2019.

Passenger demand fell during the second half of December, after the spread of a new variant of coronavirus from the UK, but bounced back during the second week of January, chief executive officer Rono Dutta told analysts during the call.

# DLF posts 9% jump in net profit in Dec quarter

Madhurima Nandy  
madhurima.n@livemint.com  
BENGALURU

DLF Ltd, India's largest real estate firm, posted a 9% rise in quarterly net profit helped by a continuing recovery in demand in the residential segment.

Profit in the three months ended 31 December rose to ₹49 crore from ₹43.10 crore a year earlier. Revenue grew 9% to ₹1,668.22 crore from ₹1,533.34 crore, DLF said in a regulatory filing on Friday.

DLF also said that Rajeev Talwar, its chief executive since 2015, has decided to retire after a long association with the company.

Demand in the residential business is improving, aided by lower interest rates, government incentives and quality supply with affordability, DLF said.

In the December quarter, DLF launched independent floors in DLF City, which received a favourable customer response. New sales bookings for the quarter rose to ₹1,022 crore, a 40% increase from the year earlier.

"We continue to step up on new launches and remain focused on creating a healthy pipeline of new products offering diversity across segments and geographies. We remain focused on cost optimization and tight working capital management," DLF said. The company ended the quarter with a positive cash flow of ₹15 crore and net debt of ₹5,100 crore.

**The Most Comprehensive Union Budget Coverage**

LIVE PANELS | PODCASTS  
| SPECIAL FEATURES | COLUMNS

**CATCH THE LIVE ACTION ON LIVEMINT.COM ON FEB 1<sup>ST</sup>**

Co-sponsor: Panasonic AIR CONDITIONERS  
Associate sponsors: Vistara, DBS

**JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED**  
(CIN : L24116UP1978PLC004624)  
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha-244223, Uttar Pradesh  
Phone: +91-5924-267200  
E-mail: investors@jubl.com  
Website: www.jubl.com

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 5, 2021, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2020 (the "Financial Results") in accordance with Regulation 33 of the Listing Regulations.

A copy of this Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.jubl.com and the websites of the Stock Exchanges - NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

For Jubilant Life Sciences Limited  
Sd/-  
Place: Noida  
Date: January 29, 2021  
**Rajiv Shah**  
Company Secretary

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020**

PARTICULARS	Standalone			Consolidated		
	3 MONTHS ENDED 31 DEC. 2020 (UNAUDITED) Rs. Crores	YEAR TO DATE 31 DEC. 2020 (UNAUDITED) Rs. Crores	3 MONTHS ENDED 31 DEC. 2019 (UNAUDITED) Rs. Crores	3 MONTHS ENDED 31 DEC. 2020 (UNAUDITED) Rs. Crores	YEAR TO DATE 31 DEC. 2020 (UNAUDITED) Rs. Crores	3 MONTHS ENDED 31 DEC. 2019 (UNAUDITED) Rs. Crores
1. Total Income	2,821.10	7,143.91	2,436.58	4,222.03	10,791.85	3,573.55
2. Net Profit before Exceptional Item and Tax	320.03	687.93	250.27	319.11	656.23	177.75
3. Net Profit before Tax	320.03	687.93	228.57	319.11	656.23	156.05
4. Net Profit after Tax	241.44	514.16	195.93	239.87	482.93	118.15
5. Net Profit after Tax and Non-Controlling Interest	241.44	514.16	195.93	241.45	488.03	118.88
6. Other Comprehensive Income (net of Tax)	7.97	11.69	(0.45)	162.81	266.34	60.63
7. Paid up Equity Share Capital (Face Value Re. 1)	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
8. Other Equity	6,211.11 *	6,211.11 *	5,901.99 **	6,382.32 *	6,382.32 *	6,021.86 **
9. Earnings per Share (Basic & Diluted) (Face Value Re. 1)	Rs. 2.84 #	Rs. 6.05 #	Rs. 2.31 #	Rs. 2.84 #	Rs. 5.74 #	Rs. 1.40 #

\* As at March 31, 2020  
\*\* As at March 31, 2019  
# Not annualised

**Note :**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website www.exideindustries.com.

Kolkata  
January 29, 2021

By order of the Board  
Gautam Chatterjee  
Managing Director & Chief Executive Officer  
DIN : 00012306

**EXIDE**  
EXIDE INDUSTRIES LIMITED  
India's No.1 Storage Battery Company  
CIN: L31402WB1947PLC014919  
Exide House, 59E Chowringhee Road, Kolkata 700 020 | www.exideindustries.com, e-mail : exideindustrieslimited@exide.co.in

**इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
**Indian Oil Corporation Limited**

[CIN - L23201MH1959GOI011388]  
Regd. Office: IndianOil Bhavan, G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East), Mumbai-400 051  
Website: www.iocl.com; Email ID: investors@indianoil.in

*Leveraging Opportunities to Energize India*

**STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER 2020** (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		UNAUDITED RESULTS			AUDITED RESULTS			UNAUDITED RESULTS			AUDITED RESULTS		
		FOR QUARTER ENDED		FOR NINE ENDED	FOR YEAR ENDED		FOR QUARTER ENDED		FOR NINE ENDED	FOR YEAR ENDED		FOR YEAR ENDED	
1	Revenues from Operations	1,46,598.83	1,15,749.43	1,44,834.50	3,51,284.80	4,27,348.06	5,66,966.32	1,47,810.23	1,16,713.17	1,46,967.12	3,54,629.88	4,34,234.37	5,76,605.61
2	Other Income	1,269.49	1,537.37	557.29	3,449.05	1,836.71	3,554.71	959.00	1,157.99	466.13	2,786.61	1,529.59	2,773.61
3	<b>Total Income</b>	<b>1,47,868.32</b>	<b>1,17,286.80</b>	<b>1,45,391.79</b>	<b>3,54,733.85</b>	<b>4,29,184.77</b>	<b>5,70,521.03</b>	<b>1,48,769.23</b>	<b>1,17,871.16</b>	<b>1,47,433.25</b>	<b>3,57,416.49</b>	<b>4,35,763.96</b>	<b>5,79,379.22</b>
4	Total Expenses	1,40,072.16	1,08,946.99	1,41,669.62	3,35,969.30	4,19,268.72	5,62,910.50	1,41,473.23	1,09,497.85	1,43,676.43	3,38,763.80	4,26,454.58	5,76,617.68
5	<b>Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items and share of associate/ joint venture)</b>	<b>7,796.16</b>	<b>8,339.81</b>	<b>3,722.17</b>	<b>18,764.55</b>	<b>9,916.05</b>	<b>7,610.53</b>	<b>7,296.00</b>	<b>8,373.31</b>	<b>3,756.82</b>	<b>18,652.69</b>	<b>9,309.38</b>	<b>2,761.54</b>
6	Share of profit/(loss) of associate/ joint venture							275.86	132.32	217.92	629.20	830.31	1,366.09
7	<b>Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)</b>	<b>7,796.16</b>	<b>8,339.81</b>	<b>3,722.17</b>	<b>18,764.55</b>	<b>9,916.05</b>	<b>(3,694.11)</b>	<b>7,571.86</b>	<b>8,505.63</b>	<b>3,974.74</b>	<b>19,281.89</b>	<b>10,139.69</b>	<b>(7,177.01)</b>
8	<b>Net Profit/(Loss) for the period after Tax</b>	<b>4,916.59</b>	<b>6,227.31</b>	<b>2,339.02</b>	<b>13,054.74</b>	<b>6,498.55</b>	<b>1,313.23</b>	<b>4,102.37</b>	<b>6,164.70</b>	<b>2,695.09</b>	<b>12,617.32</b>	<b>6,689.22</b>	<b>(1,876.32)</b>
9	<b>Net Profit/(Loss) for the period after Tax attributable to Equity holders of the Parent</b>							<b>4,359.11</b>	<b>6,025.81</b>	<b>2,683.87</b>	<b>12,611.72</b>	<b>6,889.41</b>	<b>(893.14)</b>
10	<b>Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]</b>	<b>7,791.46</b>	<b>4,780.89</b>	<b>1,837.37</b>	<b>16,315.51</b>	<b>2,662.45</b>	<b>(9,096.09)</b>	<b>7,349.34</b>	<b>3,762.52</b>	<b>2,688.54</b>	<b>16,127.16</b>	<b>3,944.17</b>	<b>(12,259.71)</b>
11	Total Comprehensive Income for the period attributable to Equity holders of the Parent							<b>7,607.64</b>	<b>3,625.45</b>	<b>2,675.99</b>	<b>16,123.57</b>	<b>4,144.67</b>	<b>(11,263.10)</b>
12	Paid-up Equity Share Capital (Face value - ₹10 each)	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16	9,414.16
13	Other Equity excluding revaluation reserves						84,587.83						86,216.87
14	Earnings per Share (₹) (not annualized) (Basic and Diluted) (Face value - ₹ 10 each)	5.36	6.78	2.55	14.22	7.08	1.43	4.75	6.56	2.92	13.74	7.50	(0.97)

**Notes:**  
1. The Board of Directors in its meeting held on 29<sup>th</sup> January, 2021 has declared an interim dividend of ₹7.50 per equity share (face value: ₹10/- per equity share).  
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, i.e., Bombay Stock Exchange (URL: https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/d36d3117-11fb-4d49-946f-9421444e370.pdf) & National Stock Exchange (URL: https://archives.nseindia.com/corporate/FinancialResults\_Q3\_2021\_1\_29012021130528.zip) and also on the company's website (www.iocl.com).

Place : New Delhi  
Date : January 29, 2021

BY ORDER OF THE BOARD  
**(S. K. GUPTA)**  
DIRECTOR (FINANCE)  
DIN No.: 07570165

Scan this QR code to download Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31<sup>st</sup> December 2020

**Indane**  
WORLD-CLASS LUBRICANTS  
100% PERFORMANCE. EVERYTIME

**PROPEL**  
100% TRUST. 100% VALUE.  
A range of world-class petrochemicals

**IndianOil Aviation**  
Our ground work takes you sky high

**Indane XTRATEJ**  
LPG that lasts longer

**XP100**  
100 octane premium petrol

Countrywide network of over 52,000 customer touch-points

Owns and operates 10 Refineries  
Group refining capacity 80.2 MMTPA



Cross country pipelines network of 14,670 km

2<sup>nd</sup> largest player in natural gas, petrochemicals

Follow us on: [f](#) /IndianOilCorpLimited [t](#) /IndianOilcl [v](#) /indianoilcorporationlimited [i](#) /indianoilcorp [in](#) /indian-oil-corp-limited

संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड मौतों ने फिर बढ़ाई चिंता

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बुधवार को एक दिन में रिकॉर्ड 17116 मौतों का मामला सामने आया है। लगातार बढ़ रही संख्या से साफ है कि यदि देशों ने सख्ती नहीं रखी तो यह महामारी पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी। साल 2020 के अंत में आई गिरावट के बाद नए स्ट्रेट के चलते मौतों का आंकड़ा फिर बढ़ने लगा है। यह दर कोरोना की पहली लहर के मुकाबले लगभग दोगुनी है।



देश में सक्रिय केस कम हो रहे

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 1.71 लाख (एक लाख 71 हजार 686) हो गई है, जो कुल संक्रमण का महज 1.60 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण की दर कम होकर 5.50 फीसदी रह गई है।

आईना

'जांच के बाद ही स्ट्रिडालों को हरिद्वार आने दें' देहरादून। कोविड जांच सहित स्वास्थ्य परीक्षण में सामान्य तौर पर स्वस्थ पाए जाने वाले यात्री ही हरिद्वार कुंभ के लिए अपने गंतव्य स्थान से रवाना हो पाएंगे।

उत्तराखंड आने के लिए एजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

देहरादून। कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन के बाहरी क्षेत्रों में सभी गतिविधियों को सामान्य कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर एजिस्ट्रेशन कराने और अन्य किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

एस्ट्राजेनेका टीका वयस्कों के लिए मंजूर

बर्लिन। यूरोपीय संघ नियामक ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन को सभी वयस्कों के लिए मंजूरी दे दी है।

महामारी को हराने के लिए भारत की उत्पादन क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए वैक्सीन मामले में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत : गुतारेस

सराहना

न्यूयॉर्क | एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र (यून) महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कोविड टीके के मामले में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत करार दिया।

यून महासचिव ने कोविड-19 टीका लगवाया



संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने गुरुवार को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगवाई।

'मैं आज कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगवाकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि टीका हर जगह, सभी के लिए उपलब्ध हो।'

वैक्सीन डिलोमेंसी की चौतरफा तारीफ

● 09 एशियाई देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के भारत ने पहले चरण में ● 55 लाख से ज्यादा खुराक पहुंचाई, 150 देशों को त्वरित चिकित्सकीय मदद दी ● 92 देश सस्ता टीका उपलब्ध कराने की गुहार लगा चुके हैं ● 30 करोड़ भारतीय नागरिकों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया पहले छह महीने में

किस देश को कितनी खुराक भेजी गई

Table with 2 columns: Country, Doses. Data includes Bangladesh (20L), Myanmar (15L), Nepal (10L), etc.

JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED (CIN : L24116UP1978PLC004624) Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha-244223, Uttar Pradesh...

दि ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) दिव्यो तल, ओरिएण्टल हाउस, ए-25/27, आरक अली रोड, नई दिल्ली-110002

पश्चिमंचल विद्युत वितरण निगम लि. पत्रांक-216/वि०नं०वि०मं०/मु०/वित्तापन दिनांक-29.01.2021

मरोसा : तीसरी तिमाही तक टीके की कमी नहीं



नई दिल्ली/वाशिंगटन | एजेंसी

भारत में साल 2021 की तीसरी तिमाही तक कोविड-19 टीके की कोई कमी नहीं होगी। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया के भारत प्रमुख और प्रबंध निदेशक गगन सिंह ने देखा की टीका निर्माण क्षमता को देखते हुए शुक्रवार को यह दावा किया।

श्रीलंका में भारत निर्मित वैक्सीन से टीकाकरण

कोलंबो। श्रीलंका में शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर तेनात स्वास्थ्यकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और सफाईकर्मियों को भारत में निर्मित टीके लगाए गए।

नाए स्वरूप पर असरदार हमारा टीका : नोवोवैक्स

अमेरिका की शीर्ष दवा निर्माता कंपनी नोवोवैक्स इंक ने गुरुवार को अपने कोविड-19 टीके के सास-कोव-2 वायरस के नए स्वरूप पर असरदार होने का दावा किया।

'राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों की रिहाई हो'

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उग्रकेद की सजा काट रहे सभी सात दोषियों की रिहाई की गुहार लगाई।

सीबीआई प्रमुख ने नई जांच वेबसाइट शुरू की

नई दिल्ली। सीबीआई निदेशक आर के शुक्ला ने शुक्रवार को जांच एजेंसी की एक नई वेबसाइट शुरू की, जो लोगों के लिए और अधिक सुविधाजनक है।

कोरोना योद्धा नाजिरा खान सम्मानित होगी

पौपल। कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए परिवार का विरोध झेलना मध्य प्रदेश के श्यांपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान के लिए अब उपलब्धि बन गया है।

यूपी समेत पांच राज्यों को अतिरिक्त मदद

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 2020 में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से बाढ़ और भूस्खलन के चलते नुकसान का सामना करने वाले पांच राज्यों के लिए शुक्रवार को 1,751 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय मदद को मंजूरी दे दी।

Table with 2 columns: राज्य, अतिरिक्त मदद राशि (असम 437.15 करोड़, उत्तर प्रदेश 386.06 करोड़, ओडिशा 320.94 करोड़, तेलंगाना 245.96 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 75.86 करोड़)

स्वीकृति देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बहन-भाइयों को मदद करने का संकल्प लिया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों के लिए अतिरिक्त मदद को मंजूरी दी गई है, उनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

कार्यालय जिला पंचायत सोनभद्र खनिज परिवहन ठेका/ ई-टेंडरिंग सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० सरकार की गजट में दिनांक 06-सितम्बर 2014 को प्रकाशित उपविधि के प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-623/33-2-2018-114जी/2008टी०सी० पंचायती राज अनुभाग-2 दिनांक 15फरवरी 2018 तथा प्रश्नगत लागू उपविधि दिनांक 06सितम्बर 2014 व संशोधित दिनांक 16फरवरी 2019 के अनुसार जिला पंचायत सोनभद्र अथवा अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरम, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, पत्थर, बोल्टर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, बजरी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशुचालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, मैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ागाड़ी या मानव चालित नौका से जनपद के खनिज उद्गम स्थलों से बिना बैरियर लगाये खनिज परिवहन शुल्क की वसूली की जायेगी।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर प्रतांक-अ०स०-दु०ब०/12000/2020-21 दिनांक-29.01.2021

प्रेस-विज्ञापि महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक आ०टी०ई०/स०शि०/7878/2020-21 दिनांक 15 दिसम्बर 2020 एवं पत्रांक 9023/2020-21 दिनांक 22 जनवरी 2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1) (ग) के अ०टी०ई० पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in/ सुचारु रूप से चलाने के लिये ए०आइ०सी० द्वारा कुछ नए मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं।